



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1930 (श10)
(सं0 पटना 72) पटना, वृहस्पतिवार, 19 मार्च 2009

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2009

संख्या एल0जी0-1-03/ 2009/लेज:-17--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 16 मार्च, 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव, विधि विभाग।

(बिहार अधिनियम 2, 2009)

बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2009

बिहार राज्य की संचित निधि में से 1 अप्रैल 2009 से शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम चार माहों की सेवा के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 1 अप्रैल 2009 से प्रवृत्त होगा ।

2. वित्तीय वर्ष 2009-10 में सकल व्यय रू0 47614,29,75,000 में से योजनांतर्गत होने वाले व्यय का 50 (पच्चास) प्रतिशत, निर्वाचन मद की संपूर्ण राशि, विभागों के आय-व्यय में मुख्य निर्माण, लघु कार्य एवं अनुरक्षण एवं मरम्मत विषय शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित की गयी राशि का 50 (पच्चास) प्रतिशत तथा आयोजना भिन्न मद के शेष मदों का एक तिहाई भाग (33.33 प्रतिशत) की राशि को रुपये हजार में करते हुए व्यय करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लेखानुदान में राशि प्रस्तावित है ।

3. 2009-10 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 19454,62,83,000 (उन्नीस हजार चार सौ चौवन करोड़ बासठ लाख तिरासी हजार) रुपये की निकासी।--बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 1 अप्रैल 2009 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 19454,62,83,000 (उन्नीस हजार चार सौ चौवन करोड़ बासठ लाख तिरासी हजार) रुपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे।

4. विनियोग - इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रैल 2009 को प्रारंभ होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

अनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)					
मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	अनधिक राशिया			
		राजस्व पूंजी	बिहार विधान भंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	कृषि विभाग	राजस्व	2628337000	0	2628337000
		पूंजी	400000000	0	400000000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1103403000	0	1103403000
		पूंजी	0	0	0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	828378000	0	828378000
		पूंजी	288237000	0	288237000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	213080000	0	213080000
		पूंजी	48450000	0	48450000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	14622000	14622000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1899502000	0	1899502000
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	62132000	0	62132000
		पूंजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	157238000	0	157238000
		पूंजी	127950000	0	127950000
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	675668000	0	675668000
		पूंजी	105791000	0	105791000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	2543894000	0	2543894000
		पूंजी	4883934000	0	4883934000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	508284000	0	508284000
		पूंजी	5000000	0	5000000
12	वित्त विभाग	राजस्व	1359226000	0	1359226000
		पूंजी	99616000	0	99616000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	13900503000	13900503000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	6280379000	6280379000
15	पेंशन	राजस्व	12596696000	10660000	12607356000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	5052650000	0	5052650000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	173909000	0	173909000
		पूंजी	19950000	0	19950000

18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	341919000	0	341919000
		पूँजी	0	0	0
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	448834000	0	448834000
		पूँजी	0	0	0
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	6380627000	0	6380627000
		पूँजी	675750000	0	675750000
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	32238435000	0	32238435000
		पूँजी	670000000	0	670000000
22	गृह विभाग	राजस्व	8092691000	0	8092691000
		पूँजी	535650000	0	535650000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	1087712000	0	1087712000
		पूँजी	1340140000	0	1340140000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	153244000	0	153244000
		पूँजी	5000000	0	5000000
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	384787000	0	384787000
		पूँजी	213250000	0	213250000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	607746000	0	607746000
		पूँजी	60000000	0	60000000
27	विधि विभाग	राजस्व	885031000	0	885031000
		पूँजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	158579000	158579000
		पूँजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	43663000	0	43663000
		पूँजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	971995000	0	971995000
		पूँजी	79700000	0	79700000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	3708000	0	3708000
		पूँजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	233096000	1034000	234130000
		पूँजी	0	0	0
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	254517000	0	254517000
		पूँजी	100000000	0	100000000
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	33143000	33143000
		पूँजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	3871786000	0	3871786000
		पूँजी	88900000	0	88900000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	1246101000	0	1246101000
		पूँजी	4552884000	0	4552884000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	2019657000	0	2019657000
		पूँजी	6585363000	0	6585363000

38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	212754000	0	212754000
		पूंजी	18119000	0	18119000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	1450478000	0	1450478000
		पूंजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	1651333000	0	1651333000
		पूंजी	30208000	0	30208000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	2941147000	0	2941147000
		पूंजी	12825650000	0	12825650000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	5798303000	0	5798303000
		पूंजी	846000000	0	846000000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	128854000	0	128854000
		पूंजी	251100000	0	251100000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1344222000	0	1344222000
		पूंजी	69250000	0	69250000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	204747000	0	204747000
		पूंजी	91734000	0	91734000
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	25383000	0	25383000
		पूंजी	138900000	0	138900000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	55357000	0	55357000
		पूंजी	173767000	0	173767000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	7784883000	0	7784883000
		पूंजी	0	0	0
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3312132000	0	3312132000
		पूंजी	12438600000	0	12438600000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	1200327000	0	1200327000
		पूंजी	833900000	0	833900000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	10206655000	0	10206655000
		पूंजी	520049000	0	520049000
	योग राजस्व		125384521000	14118541000	139503062000
	योग पूंजी		48762842000	6280379000	55043221000
	महायोग		174147363000	20398920000	194546283000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 72-571+400-डी०टी०पी०।